



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

15 चैत्र 1934 (श0)  
(सं0 पटना 142) पटना, बुधवार, 4 अप्रील 2012

---

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

1 मार्च 2012

सं0 निग/सारा-1-विविध-04/07-2416 (एस)—श्री अरविन्द कुमार तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल कटिहार सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पर्यटन विकास निगम, पटना को पथ प्रमंडल कटिहार के पदस्थापन काल में वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 में कराये गये मरम्मत एवं निर्माण कार्य की श्री उमाशंकर सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान-सभा से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना के आलोक में तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग से करायी गयी जांच एवं प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में आरोप प्रपत्र "क" गठित करते हुए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक-11690 (एस) अनु0, दिनांक 19.10.09 द्वारा बचाव-बयान/स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री कुमार ने अपने पत्रांक-1651, दिनांक 30.11.09 एवं पत्रांक-1 दिनांक 03.05.10 द्वारा बचाव-बयान/स्पष्टीकरण समर्पित किया।

श्री कुमार से प्राप्त बचाव बयान/स्पष्टीकरण को तकनीकी विभागीय समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य पाते हुए उन्हें उक्त आरोप से मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह0) अस्पष्ट,  
सरकार के उप-सचिव (निगरानी)।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 142-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>